

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत लखनपुर, जिला सरगुजा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. लखनपुर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महादेव वार्ड
2	मां भवानी वार्ड
3	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
4	मां महामाया वार्ड
5	स्वामी विवेकानंद वार्ड
6	अब्दुल कलाम वार्ड
7	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
8	डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
9	रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड
10	सुभाषचंद्र बोस वार्ड
11	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड
12	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
13	देव तालाब वार्ड
14	महात्मा गांधी वार्ड
15	डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड

लखनपुर नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01— महादेव वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में खुली भूमि से जोधपुर की सीमा होते हुये श्री रणजीत सिंह देव, बिनु घर तक
पूर्व	बिनु घर से दक्षिण की ओर चुल्हट नाला होते हुये केवला साहु घर तक
दक्षिण	केवला साहु घर से पश्चिम की ओर झिनपुरीपारा खुली भूमि तक
पश्चिम	खुली भूमि से उत्तर की ओर जयराम पांडेय घर के पीछे खुली भूमि होते हुये जोधपुर की सीमा तक

वार्ड क्रमांक 02— मां भवानी वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में चुल्हटनाला से पूर्व की ओर शंकर बरगाह घर तक
पूर्व	शंकर बरगाह घर तक से दक्षिण की ओर बाजारपारा रोड़ होते हुये उमेश दफ्तुआर घर सत्तीघाट तक
दक्षिण	सत्तीघाट से पश्चिम की ओर झिनपुरीपारा कुवंरपुर सीमा तक
पश्चिम	कुवंरपुर सीमा से उत्तर की ओर दाउ साहब चुल्हट नाला होतु हुये शंकर बरगाह घर तक

वार्ड क्रमांक 03— चंद्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम में भरतपुर सीमा खुली भूमि पूर्व की ओर भरतपुर सीमा तक
पूर्व	गुडडा साव के कोठार से दक्षिण की ओर जयराम कालोनी तक
दक्षिण	जयराम कालोनी तक से पश्चिम को ओर बाजारपारा रोड़
पश्चिम	बाजारपारा रोड़ होते हुये उत्तर की ओर विश्वनाथ गुप्ता घर तक

वार्ड क्रमांक 04— मां महामाया वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में महामाया मंदिर से बारीपारा के पीछे पूर्व की ओर खुली भूमि भरतपुर सीमा तक
पूर्व	खुली भूमि भरतपुर सीमा से दक्षिण की ओर पुराना गुरुकुल स्कूल होते हुये जूनाड़ीह सीमा तक
दक्षिण	जूनाड़ीह सीमा से पश्चिम की ओर रमेश ठाकुर के घर तक
पश्चिम	रमेश ठाकुर के घर से उत्तर की ओर महामाया मंदिर से बारीपारा के पीछे तक

वार्ड क्रमांक 05—स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में शरीयतुल्ला घर से पूर्व की ओर नशरत घर होते हुए नवीन कॉलेज तक
पूर्व	नवीन कॉलेज से दक्षिण की ओर भट्टी रोड़ होते हुये, जुनाडीह सीमा तक
दक्षिण	जुनाडीह सीमा से पश्चिम की ओर अला उद्दीन घर होते हुये जुनाडीह सीमा खुली भूमि
पश्चिम	जुनाडीह सीमा खुली भूमि से हरवाह पारा के पीछे जुनाडीह सीमा से उत्तर की ओर शरीयतुल्ला घर तक

वार्ड क्रमांक 06—अब्दुल कलाम वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में पर्व की ओर शिव मंदिर के पीछे खुली भूमि भरतपुर सीमा तक
पूर्व	खुली भूमि भरतपुर सीमा से दक्षिण की ओर शैलेन्द्र गुप्ता के घर तक
दक्षिण	शैलेन्द्र गुप्ता से पश्चिम की ओर शहबुददीन घर होते हुये पुराना गुरुकुल स्कूल तक
पश्चिम	पुराना गुरुकुल स्कूल से उत्तर की ओर अब्दुल घर से शिव मंदिर के पीछे खुली भूमि भरतपुर सीमा तक

वार्ड क्रमांक 07 — दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में शैलेन्द्र गुप्ता घर के पूर्व की ओर खाली भूमि से टटेंगा तालाब तक
पूर्व	टटेंगा तालाब से दक्षिण की ओर मो. इरशाद के घर से नीरज अग्रवाल घर होते मुख्य मार्ग होते हुये जुनाडीह सीमा
दक्षिण	जुनाडीह सीमा से पश्चिम की ओर गौहर अली घर से कन्या हाई स्कूल होते हुये नजीम अंसारी घर तक
पश्चिम	नजीम अंसारी घर से उत्तर की ओर नूर मोहम्मद घर से बालक हाई स्कूल के पीछे शेरा घर होते हुये टटेंगा तालाब तक

वार्ड क्रमांक 08—डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में मुख्य मार्ग से इसराफुल होटल तक
पूर्व	इसराफुल होटल से दक्षिण की ओर अमित जैन घर होते हुये साप्ताहिक बाजार, सींगरा तालाब, बंधा सीमा तक
दक्षिण	सींगरा तालाब बंधा सीमा से पश्चिम की ओर जगन्नाथ अग्रवाल घर जहरुददीन गुरुजी घर तक
पश्चिम	जहरुददीन गुरुजी घर से उत्तर की ओर मुख्य मार्ग होते हुये इसराफुल होटल तक

वार्ड क्रमांक 09— रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा मे गुमगरा रोड से पूर्व की ओर निर्मल सिंह घर तक
पूर्व	निर्मल सिंह घर से दक्षिण की ओर विजय गुप्ता सुनील अग्रवाल घर से लिंक स्टुडियो तक ।
दक्षिण	लिंक स्टुडियो से पश्चिम की ओर बस स्टैण्ड सुलभ शौचालय मानचन्द घर तक
पश्चिम	बस स्टैण्ड सुलभ शौचालय मानचन्द घर से उत्तर की ओर गुमगरा रोड तक

वार्ड क्रमांक 10— सुभाषचंद्र बोस वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में पूर्व की ओर धांगर ढबरी तालाब के पीछे खुली भूमि केवरी सीमा तक
पूर्व	केवरी सीमा से दक्षिण की ओर करम घर खुली भूमि तक
दक्षिण	करम घर से पश्चिम की ओर डेरिहा घर
पश्चिम	डेरिहा घर से उत्तर की ओर धांगर ढबरी पीनू के घर तक

वार्ड क्रमांक 11— कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में पूर्व की ओर पूरन के घर से खूली भूमि तक
पूर्व	खूली भूमि से दक्षिण की ओर दशहरा तालाब होते हुये कोसगा सीमा तक
दक्षिण	कोसगा सीमा से पश्चिम की ओर भूईयापारा स्कूल होते हुये मोहर साय के पुराना घर तक
पश्चिम	मोहर साय के पुराना घर उत्तर की ओर पूरन के घर से खूली भूमि तक

वार्ड क्रमांक 12— बाल गंगाधर तिलक वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में राजेन्द्र जयवाल घर से पूर्व की ओर होते हुये मोहर साये घर खुली भूमि तक
पूर्व	मोहर साये घर खुली भूमि से दक्षिण की ओर कोसगा सीमा होते हुये राजेश पैकरा घर तक
दक्षिण	राजेश पैकरा घर से पश्चिम से आर आई आफिस तक
पश्चिम	आर आई आफिस से उत्तर की ओर राजेन्द्र जायसवाल घर तक

वार्ड क्रमांक 13— देव तालाब वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में पूर्व की ओर प्रदीप भुईया गंगा घर होते हुए देव तालाब तक
पूर्व	देवतालाब से दक्षिण की ओर खुली भूमि कोसगा सीमा तक।
दक्षिण	खुली भूमि कोसगा सीमा पश्चिम से सूख साय घर तक
पश्चिम	सूख साय घर से उत्तर की ओर प्रदीप भुईया घर तक

वार्ड क्रमांक 14— महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में भुईयापरा से पूर्व की ओर मंगल के घर तक
पूर्व	मंगल के घर से दक्षिण की ओर बाघेन डबरी के पास खुली भूमि।
दक्षिण	बाघेन डबरी के पीछे खुली भूमि से पश्चिम की ओर बंधा सीमा खीरू घर तक
पश्चिम	बंधा सीमा खीरू घर से उत्तर की ओर हुनर राम के घर होते हुये मंगल घर तक

वार्ड क्रमांक 15— डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड

उत्तर	उत्तर पश्चिम सीमा में प्राथमिक शाला शिवपुर के पीछे भरतपुर सीमा तक
पूर्व	भरतपुर सीमा से दक्षिण की ओर पुराना नगर पंचायत कार्यालय तक
दक्षिण	पुराना नगर पंचायत कार्यालय से पश्चिम की ओर चुल्हट नाला तक
पश्चिम	चुल्हट नाला से उत्तर की ओर चुल्हट नाला होते हुये पुरा शिवपुर, प्राथमिक शाला शिवपुर के पीछे भरतपुर सीमा तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक: एफ-1-6/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-6/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Lakhanpur, Distt. Surguja as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Lakhanpur into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Mahadev Ward
2	Maa Bhawani Ward
3	Chandrashekhar Ajaad Ward
4	Maa Mahamaya Ward
5	Swami Vivekanand Ward
6	Abdul Kalam Ward
7	Deendayal Upadhyay Ward
8	Dr. Shyama Prasad Mukharjee Ward
9	Raveendranath Taigor Ward
10	Shubhaschandra Bose Ward
11	Kushabhau Thakre Ward
12	Baal Gangadhar Tilak Ward
13	Dev Talab Ward
14	Mahatma Gandhi Ward
15	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Lakhanpur

Ward no. 01 - Mahadev Ward

North	House beginning from Ranjit Pratap Singh Dev to Binu House
East	House beginning from Binu to kavla sahu House via Chulhat river
	House beginning from kavla sahu House to open land backside of
South	Jhinpuri towards west
	From North to open land to the backside of jayram pandey via a open
West	land to the boundry of jodhpur

Ward no. 02 - Maa bhawani Ward

North	In the north-west borders, from Chaul Hat Nala to east to Shankar bargah house
East	House beginning from Shankar Bargah to house of Umesh Daftuar, Sattighat
South	From the Shakti ghat to the west, the Jhinpuri para to the Kunwarpur border
West	From the Kunwarpur Border to the north, Dau Saheb Chaulhat Nala is going to Shankar Barga Ghar

Ward no. 03 - chandrashekhar Aajaad ward

North	From Bhartpur Border in the north-west borders towards east of Gudda Sao kothar
East	From Gadda Saav Kothar to South to Jai Ram Colony
South	From the Jai Ram Colony till the west and Bazaar Para Road
West	Vishwanath Gupta house towards North via bajarpara Road

Ward no. 04 - maa mahamaya ward

North	In the north-west borders, from the Maa Mahamaya temple, behind the Baripara, open Land to the east of the Bharatpur border.
East	From the border of Open land of Bharatpur to the south, to the old Gurukul school, to the Juna Deh border
South	From Juna Deh Border to the West to Ramesh Thakur's House
West	From the house of Ramesh Thakur, from the Mahamaya temple to the north, till Behind baripara

Ward no. 05 - swami vivekanand ward

- North Shariat Ullah from the north-west Border of the Nasrat house to the east till Navin college
- East From the Navin College to the south side of the Bhatti Road to the Juna Deh Border
- South Juna Dee Border open land while home from Allauddin's house on the west side of Juna Dee
- West Juna deh border from open land to behind Harawa para from Juna Dee Border to North to Shariah Ullah house

Ward no. 06 - Abdul kalam ward

- North Open land on the east side of the north-west Behind Shiva Mandir to Bharatpur border
- East From open land south Bharatpur border to Shailendra Gupta's house
- South From Shailendra Gupta to the West towards Shahabuddin house, till the old Gurukul School
- West From the Old Gurukul School to the north from Abdul Ghar, open land behind the Shiva temple to Bharatpur border

Ward no. 07 - Deendayal Upadhyay Ward

- North Shailendra Gupta from the North-West Border to the east side of the house, from empty land to Tatanga Lake
- East From the Tatanga lake to the South, from the house of Mohammad Irshad, To Neeraj Agarwal house is the main road
- South From the juna Deh Border at the West Gohar Ali House towards Girls High School, to Nazim Ansari Ghar
- West From the Nadeem Ansari house to the north, Noor Mohamed Ghar, from the house of Balak High School, towards behind Shara ghat till tatanga lake

Ward no. 08 - Dr. Shyama prasad mukharjee ward

- North From Main Street to Israfal Hotel
- East Amit Jain, from the Israful Hotel to the south, is home to the saptahik bazaar Singra lake till Bandha Border
- South Singara Talab Banda Border to the West Jagaranath Agrawal Home to Zohar Uddin Guruji House
- West Zahar Uddin Guruji to the main road towards North by Israful Hotel

Ward no. 09 - raveendranath taigor ward

North	North-west Border to Gumgara road towards Nirmal Singh house
East	Nirmal Singh from home to south Vijay Gupta from Sunil Agarwal house to Ling studio
South	From the link studio to the west, the bus stand sulabh toilets towards Manchand home
West	Bus stand sulabh toilets, from the Manchand to the north, towards Gumgara road

Ward no. 10 - shubhas chandra bose ward

North	North-West Boundary, towards the eastern boundary behind dhangar Dabari lake towards kawri border
East	From Kewari border to Open land towards south
South	Dariha House From Karma House West
West	From Deyariya House to North towards Dhangar Dubari, Peenu house

Ward no. 11 - Kushabhau Thakre ward

North	In the north-west border, from the east side of Puran's house
East	From open land south to Dussehra talab towards Kosga border From the Kosga border to the old house of Bhuiya Para School towards
South	the old house of Mohan Sayah Mohan Sayah old house to the north from the house of Puran to the
West	open land

Ward no. 12 - bal gangadhar tilak ward

North	In the north-west borders, from Rajendra Jaiswal house to East, Mohar Say House is open to the open ground.
East	Mohar Sahay home from open land south to Kosga border and Rajesh Pakra house
South	Rajesh Pakra from home to RI office
West	From RI Office to North Rajendra Jaiswal Ghar

Ward no. 13 - dev talab ward

North	From East and Pradeep Bhuyia, Ganga house in the North-West Border, till Devtalab
East	From the Devtalab to the south, open land to Kosga border
South	Open land from Kosga border to Sukha Say house
West	Sukh say home from Pradeep Bhuiya to North

Ward no. 14 - mahatma gandhi ward

North	Form North border to bhuiya para Mangal house
East	Mangal house to South bagan dabri open land
South	bagan dabari to open land west bandha border till khiru house
West	bandha border till khiru house to north hunar ram till mangal house

Ward no. 15 - Dr. Bheemrao Ambedkar ward

North	Form North Border to Behind primary School shivpur till bharatpur border.
East	From bharatpur border towards South Old Nagar Panchayat Office
South	Old Nagar Panchayat Office towards west till chulhat nala
West	From chulhat nala towards North Chulhat nala shivpur primary school till bharatpur border

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.